



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940

No. 687]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

**सा.का.नि. 933(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध प्रधानाचार्य के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली में प्रोफेसर-सह-प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली (प्रोफेसर-सह-प्रधानाचार्य) भर्ती नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .-** वह व्यक्ति .-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन का अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रोफेसर-सह-प्रधानाचार्य	01* (2018)	साधारण केंद्रीय सेवा राजपत्रित अननुसचिववर्गीय	वेतन मैट्रिक्स (123100-215900) में स्तर – 13	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति</b> : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा यह प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	समिश्रित पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) *और प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कानूनी या स्वशासी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:
(क) (i) जिन्होंने मूल केडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल केडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो : और
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं;
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;
(ii) जो राज्य नर्सिंग में नर्स या दाई के रूप में रजिस्टर्ड हो; और
(iii) एमएससी (नर्सिंग) के साथ 15 वर्ष का अनुभव जिसमें 12 वर्ष का शिक्षण का अनुभव
(iv) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या केंद्रीय सरकार में नर्सिंग में प्रशासन का 43 वर्ष का अनुभव :
<b>बांछनीय</b> <b>नर्सिंग में एम.फिल/पीएचडी</b>
<b>टिप्पण -1</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में के ऐसे विभागीय उप-प्रधानाचार्य जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए वहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, उन पर बाह्य अभ्यर्थियों के साथ ही विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन होता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।
<b>टिप्पण -2</b> प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य केडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए -11011/09/2000-एन(भाग-1)]

डॉ. रति बालाचंद्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2018

**G.S.R. 933(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the College of Nursing, New Delhi(Class I and Class II posts)Recruitment Rules,1968,in so far as they relate to the post of Principal, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Professor- cum- Principal in the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.-(1)These Rules may be called the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (Professor cum Principal) Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification, and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these Rules.
3. Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc. :- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
4. Disqualification – No person.-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Professor-cum-Principal	1* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Service, Gazetted Non-Ministerial	Level-13 in the pay matrix (Rs.1,23,100-2,15,900)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method [Deputation (Including short term contract) Plus Promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Composite Method</p> <p><u>Deputation(Including short term contract)</u></p> <p>Officers of Central or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Research Institutions:</p> <p>(A) (i) holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre or Department: or</p> <p>(ii) With five years service rendered after appointment thereto on regular basis in Level 12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>and</p> <p>(B) Possessing the following educational qualifications and experience;</p> <p>(i) Masters Degree in Nursing from a recognized University;</p> <p>(ii) Registered as a Nurse and Midwife with State Nursing Council;</p> <p>and</p> <p>(iii) Fifteen years experience with M.Sc(N) out of which twelve years should be teaching experience with Minimum of five years in Collegiate Programme;</p> <p>(iv) Three years experience in administration in Nursing in State or Union Territories or Central Government .</p> <p>Desirable:</p> <p>M.Phil/Ph.D in Nursing.</p> <p><b>Note 1:-</b> The departmental Vice-Principal In Level-12 in the Pay Matrix with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (Including short term contract) including period of deputation (Including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation(Including short term contract) shall be not exceeding fifty four years, as on the closing date of receipt of application.</p>	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

[F.No. A-11011/9/2000-N(Part-1)]

Dr RATHI BALACHANDRAN, Assistant Director General (Nursing)